

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।**

---

पत्रांक: 23413850

जहानाबाद, दिनांक: 21/12/24

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।

सेवा में,


नोडल पदाधिकारी, MR 3054  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
बिहार, पटना।


विषय :- शीर्ष Bihar Rural Road Maintenance Policy 2018 अन्तर्गत कराये जा रहे कार्य के भुगतान हेतु राशि अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि शीर्ष Bihar Rural Road Maintenance Policy 2018 अन्तर्गत कराये जा रहे कार्य के भुगतान हेतु राशि की अधियाचना विहित प्रपत्र में सलग्न कर समर्पित किया जाता है।  
अनु:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
21/12/24  
कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।

  
21/12/24

Requisition Formate for Scheme Head - MR(3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy - 2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)  
Name of Works Division :- Jehanabad

Sl No.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (in Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allocated Amount (in Lakh)	up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition done against work (in Lakh)	Remarks
					Length (in km)	Amount of (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	5 Years Routine Maintenance (in Lakh)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	RW/JE/JAW/19/0004	Bhimalpur thana bigha Banchhill Govindpur road.	10603003007	2156/06.07.19	2.80	160.7893	119.77496	24.23	66MBD/21-22	23.10.22	02.06.2023	2854	25.00	5.00	108.880	108.880	2.21601	Complete
2	RW/JE/JAW/19/0004	Morta Biha to Masari Nisp	10603002261	2156/06.07.19	1.00	21.65345	23.7463	10.99	66MBD/21-22	23.10.22	23-10-2022	2537	25.00	5.00	22.63971	22.63972	1.10659	Complete
TOTAL																	3.32260	

- Signed Hard Copy and Soft Copy (in Excel) of recorded IRI is enclosed.
- Up-to-date Physical Progress has been uploaded in MIS.

Executive Engineer  
RWD, Works Division,  
Jehanabad

21/11/24

## FORM GFR 19-A

(See Government of India;s Decision (10 below Rule-150)

Form of Utilisation Certificate up to the Month of DEC 2024

PIU-JEHANABAD

Sl.No.	Name of Schemes	Sanction No.& Date with Amount (in Lacs Rs.)	Amount Received (in Lacs Rs.)	Particulars
1	Construction or Rural Roads under MR-3054 New Maintenance Policy.	MR-3054-New Maintenance Policy-2018		Certified that out of Rs 8469.05977 Lacs of grants-in-aid Sanctioned during the year in favour of Executive Engineer R.W.D Works Div. Jehanabad Sum of Rs 8362.18002 lacs has been utilised for the purpose of New Maint. Policy-2018 Schemes as given in the margin for which it was Sanctioned and that the balance of Rs106.87975 lacs remaining utilized at the end of the period under report.
		BRRDA	8469.05977	
		Expenditure	8362.18002	
		Balance Total	106.87975	

Certified that I have satisfied my self that the conditions on which the grant-in aid was sanctioned have been dully fulfilled, are being fulfilled and that I have exercised the following check to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned .

### Kind of check exercised

1. Work have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer
2. Periodical inspection has been conducted by Excutive Engineer/Superintending Engineer.
3. Contruction Material have been tested.
4. Measurment have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer/ Excutive Engineer
5. Other codal formalities have been observed.


### Physical progress achieved

1. Contruction of Road works.
2. Contraction of CDs works .

21/12/24  
Executive Engineer  
Rural Works Department  
Works Division Jehanabad



File : C:\Users\Asus\Desktop\2023\28120910.Xls, Section No. : 11, Eqn :  $Y = 0 \cdot X^2 + 1.136 \cdot X + 132.5$   
 Name of Customer : M/S R K Construction, Name of Work/ Road : Moria Bigha to Masarh Nisp, Lab Job number :



*[Signature]*  
 03.06.23  
 J.E

*[Signature]*  
 03/06/23

*[Signature]*  
 Executive Engineer  
 R.W.D. (W) Division  
 Jehanabad



Name of Road-Moria Bigha to Masarh Nisp

Name of Contractor-M/S R K Construction

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	TEGORY ROAD	Latitude	Longitude	Event
03/6/23	7:44:32	11	0.1	230	10.1	2300	2745	G	25.28525	85.15840	Normal
03/6/23	7:45:7	11	0.1	240	20.2	2400	2858	G	25.28948	85.15822	Normal
03/6/23	7:46:18	11	0.1	180	30.3	1800	2177	G	25.29948	85.15824	Normal
03/6/23	7:47:28	11	0.1	210	20.2	2100	2518	G	25.29949	85.15825	Normal
03/6/23	7:48:4	11	0.1	210	20.2	2100	2518	G	25.2928	85.15295	Normal
03/6/23	7:48:39	11	0.1	230	20.2	2300	2745	G	25.58047	85.15810	Normal
03/6/23	7:49:14	11	0.1	210	20.2	2100	2518	G	25.58049	85.15827	Normal
03/6/23	7:50:0	11	0.1	210	20.2	2100	2518	G	25.2895	85.16552	Normal
03/6/23	7:51:0	11	0.1	180	20.2	1800	2177	G	25.29335	85.15926	Normal
03/6/23	7:51:35	11	0.1	220	20.2	2200	2631	G	25.2939	85.16995	Normal
Average							2537				

$$Y = 0 * X^2 + 1.136 * X + 132.5$$

$$X = 5900$$

$$Y = 6834$$

(R) RURAL ROAD  
Good Average Poor  
<4000 4001-5000 >5001

Asd  
03/06/2023

03.06.23

03/06/23


Executive Engineer  
R.W.D. (W) Division  
Jehanabad

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद**


**कार्य का नाम— मोरीया बिगहा से मसाढ़ निसप**

यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।

1. कराये गये कार्य के सभी अवयवों के अवयववार 100% कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कनीय अभियंता द्वारा किया गया है।
2. कराये गये कार्य के सभी अवयवों के अवयववार 50% कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन सहायक अभियंता द्वारा किया गया है।
3. कराये गये कार्य के सभी अवयवों के अवयववार 10% कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है।

  
03.06.23  
J.E

  
03/06/23  
ME

  
कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमंडल जहानाबाद